

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश
शिमला दिनांक 04-मार्च-2017
हिंदी समिति की बैठक का आयोजन एवं
एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने एवं सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्ष की प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक, हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन अपेक्षित है।

इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2016-17 की चतुर्थ तिमाही (01-जनवरी-2017 से 31-मार्च-2017) के दौरान दिनांक 04-मार्च-2017 को कार्यालय की हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक, एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पूर्व में सूचित किया गया था, एवं इसी प्रकार से कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी कार्यशाला व हिंदी संगोष्ठी के आयोजन के लिए भी पूर्व में सूचित किया गया था।



श्री अजय सिंह चैहल राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी हिंदी कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए

सबसे पहले कार्यालय की हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन पूर्व निर्धारित समय अनुसार किया गया एवं बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। समिति की बैठक में एन.आई.सी. हि.प्र. कार्यालय एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गयी। एवं यह पाया गया, कि राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी के मार्गदर्शन में राज्य कार्यालय एवं सभी अधीनस्थ कार्यालयों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक सुचारू रूप से किया जा रहा है।

हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक के पश्चात् हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजन हेतु कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने-अपने नाम कार्यशाला के आरम्भ होने से पूर्व सूचित करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें कार्यालय में अथवा अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी के प्रयोग एवं हिंदी में कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही हो। परन्तु किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी ने अपना नाम नामित नहीं किया एवं सभी ने सूचित किया, कि उनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।



हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी में जिला कार्यालय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हुए

हिंदी कार्यशाला में राज्य कार्यालय एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। जिला एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस प्रकार कार्यालय की हिंदी कार्यशाला के दौरान सभी उपस्थित महानुभावों ने क्रम वार विस्तृत रूप से विचारों का आदान प्रदान किया, एवं अपने-अपने कार्यालयों में

राजभाषा के प्रयोग हेतु अनुभव साँझा किये। सभी उपस्थित महानुभावों द्वारा विचारों एवं अनुभवों को साँझा करते हुए मूल विषय अपने-अपने कार्यालयों एवं कार्यक्षेत्रों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना एवं बढ़ावा देना ही रहा। इस प्रकार से विशेष कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया, परन्तु कार्यशाला का आयोजन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उत्साहवर्धक एवं हिंदी के ज्ञान को कार्यालय में प्रयोग हेतु तरोताजा रखने के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा।



हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी में महानुभाव अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए

हिंदी कार्यशाला के आयोजन के तत्पश्चात एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश कार्यालय में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भी हि.प्र. राज्य केंद्र एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने विचार, रचनाएं कार्यक्षेत्र के अनुभव एवं कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को और अधिक सशक्त रूप से जारी रखने सम्बन्धी विचार व अनुभव प्रस्तुत किए, जो कि सभी के लिए अत्यंत उत्साह पूर्ण थे। संगोष्ठी के दौरान श्री विमल कुमार शर्मा जी एवं श्री विनोद गर्ग जी का योगदान विशेष रूप से रहा।

उक्त आयोजन के दौरान श्री वीरेंद्र प्रताप गुप्ता ने सुझाव दिया कि, ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे हिंदी के शब्द व विचार पुस्तक के रूप में छपने चाहिए एवं श्री मोहन राकेश ने कहा कि परिचय कार्ड द्विभाषी होने चाहिए। उपरोक्त सुझावों के लिए समिति ने निर्णय लिया कि श्री वीरेंद्र प्रताप गुप्ता ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे हिंदी के शब्द व विचार के अतिरिक्त तकनीकी विषयों पर लिखेंगे एवं भू-अभिलेख नियम पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद करेंगे। द्विभाषी परिचय कार्ड सम्बन्धी निर्देश कार्यालय में पहले से ही कार्यान्वित हैं।

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी में निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया :

क्रम सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	क्रम सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम
1	अजय सिंह चौहल	17	राकेश कुमार
2	ललित कपूर	18	वीरेन्द्र प्रताप गुप्ता
3	संदीप सूद	19	विनोद कुमार गर्ग
4	विजय कुमार गुप्ता	20	भूपेंद्र सिंह
5	संजय कुमार	21	अक्षय मेहता
6	संजय शर्मा	22	राजीव कुमार
7	विमल कुमार शर्मा	23	अखिलेश भारती
8	संदीप कुमार	24	अश्वनी कुमार
9	दलजीत राणा	25	पंकज गुप्ता
10	सी.एल. कश्यप	26	दीपक कुमार
11	आशीष शर्मा	27	मोहन राकेश
12	प्रवीण शर्मा	28	संजीव कुमार कश्यप
13	वंदना सांख्यान	29	अशोक कुमार कटोच
14	सर्वजीत कुमार	30	विनय डोगरा
15	पृथ्वी राज नेगी	31	शंकर लाल
16	अमित कन्नौजिया	32	हमेंदर लाल

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम दिन भर जारी रहा एवं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्यालय में राजभाषा के सम्पूर्ण प्रयोग हेतु अपने अपने विचार रखे एवं अपने अपने अनुभव साँझा किये, जो कि सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक थे, तथा इसी के साथ ही एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी के कार्यक्रम का समापन हुआ।